



सत्यमेव जयते

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,

केंद्रीय कर भवन,

7th Floor, GST Building,

Near Polytechnic,

सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास,

Ambavadi, Ahmedabad-380015

आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015

☎ : 079-26305065

टैलेफेक्स : 079 - 26305136



रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(ST)120/Ahd-South/2018-19
Stay Appl.No. /2018-19

7484

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-089-2018-19
दिनांक Date : 31-10-2018 जारी करने की तारीख Date of Issue _____

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. CGST-VI/ref-65/Vipul/18-19 दिनांक: 02.07.2018 issued by
Assistant Commissioner, Div-VI, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
Vipul waterproofers pvt ltd
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 2 ...



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उपरोक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू गैन्टल हॉस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016

(ग) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

यदि इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER IN APPEAL

M/s. Vipul Waterproofers Pvt. Ltd., Opp. Dev Residency, Azad Society Road, Ambawadi, Ahmedabad (*hereinafter referred to as 'the appellants'*) has filed the present appeal against Order-in-Original number CGST-VI/REF-65/Vipul/18-19 dated 02.07.2018 (*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the Assistant Commissioner, CGST, Division-VI, Ahmedabad-South.

2. The facts of the case, in brief, are that the appellants are engaged in the business of providing taxable services covered under the definition of "Erection, Commissioning and Installation Services, Construction Services other than Residential Complex including Commercial/Industrial Buildings or Structures, GTA, Construction of Residential Complex Services and Works Contract Service", for which they were holding Service Tax Registration number AAACV4998HST001. The appellants had filed a refund application, amounting to ₹42,545/-, before the adjudicating authority.
3. The adjudicating authority rejected the entire claim of ₹42,545/- vide the impugned order. However, in the process of rejecting the claim, the adjudicating authority neither issued a show cause notice nor awarded the appellants the opportunity of personal hearing.
4. Being aggrieved with the impugned order the appellants have preferred the present appeal. The appellants have submitted that the impugned order has been passed in gross violation of the principles of natural justice as their claim has been rejected without allowing them the chance to defend themselves in writing as well as in person. The appellants further claimed that their refund has been rejected on vague grounds.
5. Personal hearing in the matter was granted and held on 25.10.2018. Shri Pravin Dhandharia, Chartered Accountant, appeared before me and reiterated the contents of appeal memo. He further stated that 5 bills were cancelled and debit notes were issued during GST regime. He further reiterated that neither any show cause notice was issued to them nor they got the opportunity to represent their case in person.
6. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of appeal in the Appeal Memorandum and oral submissions made by the appellants at the time of personal hearing. The very first thing that struck my attention in the impugned order is that the appellants were denied their right of natural justice. Surprisingly, no show cause notice was issued to the appellants and neither were they called by the adjudicating authority for personal hearing. This is a perfect case of denial of justice by



departmental authority. The refund claim was rejected on several grounds viz. non submission of bank statement, copy of agreement etc. There were also some observations on the part of the adjudicating authority which were concluded by the adjudicating authority purely based on probability. The non available documents could have been asked from the appellants. The query regarding cancellation of agreement and period of service could also been solved had the adjudicating authority asked the same by issuing show cause notice or in the course of personal hearing. Regarding the gap between the date of invoice and its cancellation, the adjudicating authority has not quoted any rule or law in his support. Also, in sub-para (5) of paragraph 3 of the impugned order, the adjudicating authority shows difficulty to accept the fact that the amount of money returned back was exclusively in relation to the invoices. Did he ask the appellants to clarify the issue with documentary evidence? In the process of refund claim, onus to clarify all kinds of ambiguity falls on the shoulders of the claimant of the refund. So, the appellants could have been asked to clarify the issue. Thus, looking to the above, I find that the adjudicating authority has kept many open loop holes in the impugned order.

7. Also, going through the grounds of appeal, I find that the appellants have alleged that the adjudicating authority has neither issued any show cause notice nor allotted them the opportunity of being heard in person. It seems that the adjudicating authority was in a hurry to decide the case as per his own choice and that is why he forgot to issue a show cause notice and award the appellants the opportunity of personal hearing in contrast to the principles of natural justice. This, I find, is a clear case of violation of principles of natural justice. The adjudicating authority simply jumped to a conclusion in absence of supporting evidence from the appellants. He should have offered the appellants the opportunity of personal hearing to avoid unnecessary allegation of injustice. This has converted the entire case into a single way traffic where one party has all the easy access of the path and the other party has been barred to even enter inside. When the department has authorized him to perform the role of an adjudicating authority, he should shun all kind of personal prejudice against the claimants and decide the cases with an impartial attitude.

8. Therefore, looking to all the confusions, vagueness and allegations enveloping the case, it becomes fit to remand back to the adjudicating authority to verify it finally in light of my discussion held in paragraphs 6 and 7. The adjudicating authority is further directed to treat the appellants as per the clause mentioned in the principles of natural justice mentioned in paragraph 7 above and conclude the case with the help of genuine documentary evidences. The appellants are also directed to provide all



possible assistance to the adjudicating authority in relation to the above mentioned claim.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.


उमा शंकर

(उमा शंकर)

CENTRAL TAX (Appeals),

AHMEDABAD.


ATTESTED


(S. DUTTA) 06/2/18

SUPERINTENDENT,

CENTRAL TAX (APPEALS),

AHMEDABAD.



To,

M/s. Vipul Waterproofers Pvt. Ltd.,

A-2, 3 Jay Apartment, Opp. Dev-20 Residency,

Azad Society Road, Ambawadi,

Ahmedabad-380 015.

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad Zone.
- 2) The Commissioner, Central Tax, Ahmedabad-South.
- 3) The Dy./Asst. Commissioner, Central Tax, Div-VI, Ahmedabad-South.
- 4) The Asst. Commissioner (System), Central Tax, Hq., Ahmedabad-South.
- 5) Guard File.
- 6) P. A. File.